

#### July 26th, 2020

National Stock Exchange of India

Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051 **BSE Limited,** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.,

Vibgyor Towers, 4<sup>th</sup> Floor, Plot No. C62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla, Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098

CIN No.: L51909DL1983PLC016907

**NSE Scrip Symbol: BLS** 

BSE Scrip Code: 540073

MSEI Scrip Symbol: BLS

### Subject: <u>Publication in Newspaper Notice of Board Meeting under Regulation 47 (1) (a) of SEBI (LODR), Regulations, 2015</u>

Dear Sir / Madam,

Please find attached herewith copies of the Newspaper Advertisement of Board Meeting Notice of the Company published on 26<sup>th</sup> July, 2020 in Financial Express (English edition) & Jansatta (Hindi edition).

The aforesaid Newspaper clippings are also uploaded on Company's website.

Further, in view of lock down due to COVID-19 pandemic, this submission is being filed under Sd/-. Hence, we request you to kindly accept this submission and take same on record.

#### For BLS International Services Limited

Sd/-Amit Sudhakar Chief Financial Officer

Encl: as above



STATE BANK OF INDIA RACPC-Cum-SARC Faridabad SCO-98, 1st & Second Floor, Sector-16 Market, Faridabad, Ph: 0129-2289222 Fax: 0129-2290222

**POSSESSION NOTICE** Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of State Bank of India RACPC-Cum-SARC Faridabad under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conterned under section 13 (2) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 08.01.2020 calling upon the Borrower: Mr. Kanchhi Singh Sio Chander Singh Panwar, H.No 390, Adrash Nagar, Gali No. 12, Bellobhgarh, Faridabad-121004, and Guarantons: (1) Rajiy Panwar Sio Sh. Kanchhi Singh, H. No. 390, Adrash Nagar, Gali No. 12, Ballabhgam, Fandalsad 121004 (2) Rajiv Panwar Sio Sh. Kanothi Singh, Cio Religare Marketing Services Pvt Ltd. 31 First Floor, Quma: Ekta trust house Bahi Veer Singh Mars, New Delhi-110001 to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 5.02,743.00 (Rupees Five Lax Two Thousand Seven Hundred Fourty Three only) + Future interest at contractual rate w.e.f. 08.01.2020 logether with inoder tal expenses cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowen's / Guaranton's | having failed to repay the amount vide Account No. 65054277046 notice is hereby given to the Borrowen's //Guaranton's | and the Public in General that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Pale 6 of the said Rules on this 25" day of July of the year 2020. The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular and the Public in General is hareby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of State Bank of India for an amount of Rs. 5,92,743.00 (Rupees Five Lac Two Thousand Seven Hundred Fourty Three only) + Future Interest at contractual rate w.e.f. 06.01.2020 together with incidental expenses cost.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property bearing Plot H. No. MCF 350 (Clid Plot No. 156) Adresh Negar Bellabhgerh Faridabed.

Date: 26:07:2020 Place: Faridabad

TRANSCORP INTERNATIONAL LTD Regd. Office: Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 184, Uwarka, Phase-II,

New Delhi-110075 CIN: L519050L1994PLC235697

Web-site:www.transcorpint.com, e-mail:grievance@transcorpint.com

Phone: 91-11-30418901-05, Fax: 91-11-30418906 NOTICE

Notice is hereby given pursuant to relevant

Regulations of SEBI (Listing Obligations And

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and

other applicable laws that the next meeting of Board of Directors of the Company will be held o

Saturday, 01st August 2020 to consider interalia the un-audited financial results (standalone and

consolidated) for the guarter ended 30th Juni

2020. The Notice is also available at Investo

Communication section of the Company's websit

www.transcorpint.com and corporate announce

For Transcorp International Limited

ement section of www.bseindia.com

dranges etc.

State Bank of India. RACPC-Cure-SARC

Authorized Officer

(Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government Regional Director, Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of TSN Corporate Health & Hospital Management Private Limited having its registered office at L-140, Sarita Vihar, New Delhi-110076, India.

Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General meeting held on 20th July, 2020 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to the "State of Bihar"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address 3-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Board of TSN Corporate Health & Hospital Management Private Limited

Dr. Talat Halim Director DIN: 02073980 PRAG BOSIMI SYNTHETICS LIMITED CIN No. L17124AS1987PLC002758 Corp Off: House No 4 Nilgiri Path, R G Barua Road Nr Doordarshan, Guwahati, Assam-781024

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI( Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Prad Bosimi Synthetics Limited will be held at the Corporate Office of the Company at R79/82, 5th Floor, Laxmi Insurance Building, Sir P M Road, Mumbai-400005 on Friday, 31st July, 2020 at 3.00 pm inter alia, to transact the following 1. Audited Financial Results for the 4th

guarter/Year ended on March 31, 2020 for the financial year ending on March 31, 2020 Re-appointment of Mr. Mukund Pradyumanrai

Director of the Company for another term of 5 years effective from 14th August 2020. 3. Any other matter with the permission of Chair Yours Faithfully For Prag Bosimi Synthetics Limited

Trivedi (DIN: 07179964) as Independent

Hemant B Vyas (Managing Director)

Date: 24th July 2020

SOUTH Bank

Regional Office: Delhi 1-18/20, White House, 2nd Floor, Rani Jhansi Road New Delhi-11005 Tel: 011-23610400 Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017 TENDER CUM AUCTION SALE NOTICE

WHEREAS the Authorised Officer of the Bank (hereinafter referred as AO) had issued Demand Notice RO/DEL/LEG/SAR7/08/2017-2018 Dated 01/11/2017 to the Borrower Mr. Y Shiva Nagaraju, Proprietor M/s. Nidhie Ads Consultancy Services, with address at 252 1 1st Floor, Iskcon Mandir Road, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110048 also at 219, 2nd Floor, Vinobapuri, Laipat Nagar-II. New Delhi-110024 and the Guarantor, Mrs. Y Sunita Nagaraju residing at 219, 2nd Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (hereinafter referred to as 'The Act') and has taken PHYSICAL POSSESSION of the immovable property, more fully described in the schedule hereunder under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 20/10/2018.

AND WHEREAS, the borrower/quarantor have failed to pay the amount in full. Notice is hereby given that the immovable property more fully described in the Schedule hereunder will be sold by way of tender cum auction on "as is where is" basis and "as is what is" condition, on the date and at the place mentioned herein below for realization of a sum of Rs. 1,44,50,463.77 (Rupees One Crore Forty Four Lakhs Fifty Thousand Four Hundred and Sixty Three and Paisa Seventy Seven Only) as on 21/07/2020 with interest from 22/07/2020 with further interest and costs, subject to the following terms and conditions: -

Name of Property Owner Mr. Y. Shiva Nagaraju Description of Property All that part and parcel of residential property situated in 2nd Floor (North side) of property bearing

no. 219, Vinoba Puri, Lajpat Nagar II, New Delhi – 24 thereon admeasuring 897 Sq Ft with all constructions/improvements made thereon along with freehold proportionate share of ownership rights in the land underneath, in the name of Mr. Y. Shiva Nagaraju more particularly described under Sale Deed No. 1195 Dated 31.01.2004 of SRO - V. Mehrauli, New Delhi bounded by -

Plot No. 220 at North, Plot No. 218 at South, Service Road at East and Road at West.

Rs. 85,50,000,00 (Rupees Eighty Five Lakhs Fifty Thousand Only) Reserve Price

Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 8,55,000.00 (Rupees Eight Lakhs Fifty Five Thousand Only)

Date and Place of Sale 31/08/2020

New Delhi Regional Office 1/18-20, 2nd Floor, White House, Rani Jhansi Road, New Delhi 110055 TERMS AND CONDITIONS

or any other fact affecting the property. The particulars furnished regarding the secured asset is stated to the best of information of the Bank and the Bank will not be answerable for any error, misstatement or omission. The proposed Tenderers shall read and understand the terms and conditions mentioned in the Tender Sale Notice which is published by the Bank in its Website (www.southindianbank.com) and New Delhi Regional Office at 1/18-20, 2nd Floor, White House, Rani Jhansi Road, New Delhi 110055 and Karol Bagh Branch at Plot no. 18, Pusa Road, GF, Karol Bagh, New Delhi - 5

and also visit the scheduled property and satisfy as to its area, boundaries etc, ownership, title, encumbrances, statutory approvals,

South Indian Bank Ltd." payable at New Delhi or by RTGS / NEFT to account number "0117073000004456" in the name of

The property will be sold on "as is where is" basis and "as is what is" condition and the Bank is not responsible for title, condition.

measurements etc. The Bank shall not entertain any dispute regarding the Tender process or the scheduled property after Interested Tenderers shall produce a copy of any valid photo identity/ address proof. In case, the Tenderer is participating on authorization, he should produce the ID proof of himself and the Tenderer. 4) All amounts payable regarding the sale including EMD shall be paid by way of DD drawn in favour of "The Authorised Officer, The

"Authorised Officer under SARFAESI Act" (IFS Code SIBL0000117) with Karol Bhag Branch. Interested Tenderers shall submit Demand Draft / RTGS receipt for the EMD at The South Indian Bank Ltd., Delhi Regional Office at 1/18-20, 2nd Floor, White House, Rani Jhansi Road, New Delhi 110055 along with the Tender in a sealed cover before 11:30 AM

on 31/08/2020. The Right of entry to the place of sale will be restricted to the Tenderers who have submitted the Tender letter and EMD in a sealed cover within the stipulated time or within such time as may be decided by the Authorised officer at his sole discretion.

The Authorised Officer has got right to cancel/ postpone the Auction without assigning any reason whatsoever. Further, the Authorised Officer shall have the discretion to accept, reject or return any or all the Tenders already submitted and the Bank will not

entertain any claim or representation in that regard from the Tenderers.

8) The Sealed Tenders will be opened by the Authorised Officer on 31/08/2020 at 12:00 Noon. Any tender received quoting a price below the Reserve Price will be rejected outright. 9) After opening the tenders, the Tenderers who are present may be given an opportunity at the discretion of the Authorised Officer to

have inter se bidding among themselves to enhance their offer price. 0) The Successful Tenderer should pay 25.00 % of the bid amount (less EMD) immediately on receipt of bid acceptance letter and the balance 75.00% amount within 15 days of the sale, failing which the entire amount paid by the Tenderer shall be forfeited by the

desirable cases the time may be extended at the sole discretion of the Secured Creditor. 1) The sale is subject to confirmation by the Authorised Officer, who shall have right to cancel the sale also notwithstanding that the successful Tenderer has remitted the 25.00 % of Sale amount. Further, the sale is also subject to confirmation by the Secured 12) On the sale being confirmed and on receipt of the entire sale proceeds by the Authorised Officer, the successful Tenderer will be

Authorised Officer, without any notice and the sale will be cancelled and the property will be brought to sale again. However, in

pay all the existing dues etc., to the Government/ Local Authorities including charges/ fees payable for registration of sale certificate such as registration Fees, Stamp Duty etc., as applicable as per law. 13) The Authorised Officer or Bank will not be held responsible for any charge, lien, encumbrance, property tax or any dues to the

issued with a Sale Certificate as per the terms and conditions of the Bank and the SARFAESI Act. The successful Tenderer should

Government or anybody in respect of the properties under sale. (4) The successful Tenderer shall pay all Taxes/ Electricity/ Water/ Sewerage Charges or any other charges demanded by any authority after the acceptance of the bid, even if it pertains to previous periods.

15) The Successful Tenderer shall, at his cost, get the Electricity/ Water/ Sewarage connection etc. and any other common services transferred in his name. (6) The Authorised Officer has obtained search report regarding the property from July 2004 to August 2005, January 2009 to

February 2012, February 2012 to May 2015 and 2017 to November 2018 and it contains no encumbrance. 7) For any further information and for inspection of property, the intended Tenderers may contact the Authorised Officer at New Delhi

Regional Office at 1/18-20, 2nd Floor, White House, Rani Jhansi Road, New Delhi 110055 or The Branch Manager, The South Indian Bank Ltd., and Karol Bagh Branch at Plot no. 18, Pusa Road, GF, Karol Bagh, New Delhi - 5 (Phone No 70089 58630) during working hours.

This may be treated as notice to the borrower/ co-obligant/ quarantor informing them that the property will be sold if the entire amount due to the Bank being of Rs. 1,44,50,463.77 (Rupees One Crore Forty Four Lakhs Fifty Thousand Four Hundred and Sixty Three

and Paisa Seventy Seven Only) as on 21/07/2020 with interest from 22/07/2020 and other costs and charges is not remitted on or before the date fixed for sale. **Authorised Officer** 

Date: 26/07/2020 Place: New Delhi

The South Indian Bank Ltd

SOUTH Bank

Regional Office: Delhi 1-18/20, White House, 2nd Floor, Rani Jhansi Road New Delhi-110055 Tel: 011-23610400 Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017 TENDER CUM AUCTION SALE NOTICE

WHEREAS the Authorised Officer of the Bank had issued Demand Notice RO/DEL/LEG/SAR/31/18-19 Dated 01/09/2018 to (1) M/s. Asian Books Private Limited, a Private Limited Company with its Registered Office at Municipal No. 4536/XII, Plot No. 7/28, Part II of

Vardan House, Mahavir Lane, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110 002 and Guarantor (2) Mr. Kamal Jagasia Son of Megha Raj residing at B-27, Swami Nagar, New Delhi 110 017 also at: W-54, IInd Floor, Greater Kailash-II, Greater Kailash, New Delhi 100 048 and (3) Mr. Avinash Jagasia son of Kamal Jagasia residing at B-27, Swami Nagar, New Delhi 110017 under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as 'The Act') and has taken SYMBOLIC POSSESSION of the immovable properties, more fully described in the schedule hereunder under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 26/02/2019. AND WHEREAS, the Borrower/ Co-Obligant/ Guarantor have failed to pay the amount, Notice is hereby given that the immovable properties more fully described in the Schedule hereunder will be sold by way of Tender Cum Auction on "as is where is" basis and "as

is what is" condition, on the date and at the place mentioned herein below for realization of a sum of Rs 7,52,57,456.54 (Rupees Seven Crores Fifty Two Lakhs Fifty Seven Thousand and Four Hundred and Fifty Six and Paise Fifty Four Only) as on 30/06/2020 with interest from 01/07/2020, being the total dues in the accounts M/s. Asian Books Private Limited with further interest and costs, subject to the following terms and conditions: -Name of Property Owner M/s. Asian Books Private Limited

Description of Property

cover before 11:30 AM on 31/08/2020.

registration Fees, Stamp Duty etc., as applicable as per law.

New Delhi

Reserve Price

All that part and parcel of Unit No.101 & 102 on the First Floor containing undivided land share of 624 Sq Ft attributable to the said unit and covered area of 1403 Sq Ft in the building constructed in the land measuring about 10 Cottahs 1 Chittack 5 Sq Ft lying and situated at Premises No.10 A Hospital Street (Previously portion of 157 C, Lenin Sarani and previous thereto portion of 157C, Dharamtalla Street in the city of Kolkata) within the Kolkata Municipal Corporation in the name of M/s. Asian Books Private Limited more particularly described under Agreement dated 12/12/1995 & Sub Lease Deed No.5162/1999 registered on 22/03/1999 of SRO Kolkata bounded by Portion of 157 C, Lenin Sarani Kolkata at North, Portion of 157 A Lenin Sarani at East, Portion of 157 C Lenin Sarani at South and Hospital Street at West.

Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 12,80,000/- (Rupees Twelve Lakhs Eighty Thousand Only)

Date and Place of Sale

The South Indian Bank Ltd. Kolkata Regional Office Door No.20 A, Ward No.63, 1st Floor, Flat No.1 Park Street P.O., Kolkata, West Bengal- 700016

**TERMS AND CONDITIONS** The property will be sold on "as is where is" basis and "as is what is" condition and the Bank is not responsible for title, condition or

any other fact affecting the property. The particulars furnished regarding the secured asset is stated to the best of information of the Bank and the Bank will not be answerable for any error, misstatement or omission. The proposed Tenderers shall read and understand the terms and conditions mentioned in the Tender Sale Notice which is published by the Bank in its Website (www.southindianbank.com) and Kolkata Regional Office, Door No.20 A, Ward No.63, 1st Floor, Flat

No.1, Park Street P.O., Kolkata, West Bengal-700016 and Connaught Place Branch at 22 Regal Building Connaught Place New

Rs. 1,28,00,000/- (Rupees One Crores Twenty Eight Lakhs Only)

Delhi 110001 and New Delhi Regional Office at 1/18-20, 2nd Floor, White House, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055 and also visit the scheduled property and satisfy as to its area, boundaries etc, ownership, title, encumbrances, statutory approvals, measurements etc. The Bank shall not entertain any dispute regarding the Tender process or the scheduled property after participating in the sale. 3) Interested Tenderers shall produce a copy of any valid photo identity/ address proof. In case, the Tenderer is participating on

authorization, he should produce the ID proof of himself and the Tenderer. 4) All amounts payable regarding the sale including EMD shall be paid by way of DD drawn in favour of "The Authorised Officer, The South Indian Bank Ltd." payable at Kolkata or by RTGS / NEFT to account number "0129073000010712" in the name of "Authorised

Officer under SARFAESI Act" (IFS Code SIBL0000129) with Kolkata GC Avenue Branch. Interested Tenderers shall submit Demand Draft / RTGS receipt for the EMD at The South Indian Bank Ltd., Kolkata Regional Office.

Door No. 20 A, Ward No. 63, 1st Floor, Flat No. 1, Park Street P.O., Kolkata, West Bengal-700016 along with the Tender in a sealed

The Right of entry to the place of sale will be restricted to the Tenderers who have submitted the Tender letter and EMD in a sealed cover within the stipulated time or within such time as may be decided by the Authorised officer at his sole discretion.

 The Authorised Officer has got right to cancel/ postpone the Auction without assigning any reason whatsoever. Further, the Authorised Officer shall have the discretion to accept, reject or return any or all the Tenders already submitted and the Bank will not

entertain any claim or representation in that regard from the Tenderers. 8) The Sealed Tenders will be opened by the Authorised Officer on 31/08/2020 at 12:00 Noon. Any tender received quoting a price below

the Reserve Price will be rejected outright. 9) After opening the tenders, the Tenderers who are present may be given an opportunity at the discretion of the Authorised Officer to

have inter se bidding among themselves to enhance their offer price. 10) The Successful Tenderer should pay 25.00 % of the bid amount (less EMD) immediately on receipt of bid acceptance letter and the

balance 75:00% amount within 15 days of the sale, failing which the entire amount paid by the Tenderer shall be forfeited by the Authorised Officer, without any notice and the sale will be cancelled and the property will be brought to sale again. However, in

desirable cases the time may be extended at the sole discretion of the Secured Creditor. 11) The sale is subject to confirmation by the Authorised Officer, who shall have right to cancel the sale also notwithstanding that the

successful Tenderer has remitted the 25.00 % of Sale amount. Further, the sale is also subject to confirmation by the Secured Creditor. 12) On the sale being confirmed and on receipt of the entire sale proceeds by the Authorised Officer, the successful Tenderer will be issued. with a Sale Certificate as per the terms and conditions of the Bank and the SARFAESI Act. The successful Tenderer should pay all the existing dues etc., to the Government/ Local Authorities including charges/ fees payable for registration of sale certificate such as

(4) The successful Tenderer shall pay all Taxes/ Electricity/ Water/ Sewerage Charges or any other charges demanded by any authority

13) The Authorised Officer or Bank will not be held responsible for any charge, lien, encumbrance, property tax or any dues to the Government or anybody in respect of the properties under sale.

after the acceptance of the bid, even if it pertains to previous periods. 15) The Successful Tenderer shall, at his cost, get the Electricity/ Water/ Sewarage connection etc. and any other common services

transferred in his name. 16) The Authorised Officer has obtained EC/search report regarding the property from the year 01/01/1978 to 20/07/2020 and it contains NO ENCUMBRANCE.

17) For any further information and for inspection of property, the intended Tenderers may contact the Authorised Officer at The South

Indian Bank Ltd, Kolkata Regional Office, Door No.20 A, Ward No.63, 1st Floor, Flat No.1, Park Street P.O., Kolkata, West Bengal-700016 or The Branch Manager, The South Indian Bank Ltd., Connaught Place Branch at 22 Regal Building Connaught Place New Delhi 110 001 (Ph 91 99474 96269) during working hours.

This may be treated as notice to the Borrower/ Co-Obligant/ Guarantor informing them that the property will be sold if the entire amount due to the Bank being of Rs 7,52,57,456.54 (Rupees Seven Crores Fifty Two Lakhs Fifty Seven Thousand and Four Hundred and Fifty

Date: 26/07/2020 **Authorised Officer** Place: Kolkata The South Indian Bank Ltd

Six and Paise Fifty Four Only) as on 30/06/2020 with interest from 01/07/2020, and other costs and charges is not remitted on or before

**FE SUNDAY** 

Form No. INC-26

....Petitioner/Applicant Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the

"L-140, Sarita Vihar, New Delhi-110076, India"

Date: 25/07/2020 Place: New Delhi

lanara Bank भारत सरकार का उपक्रम

29-08-2020 Last date of EMD: 27-08-2020

Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Canara Bank., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 29.08.2020 through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in M/s Canbank Computer Services Ltd., J P ROYALE, 1st Floor, # 218, 2nd Main,

Sampige Road, (Near 14th Cross) Malleswaram, BANGALORE-560003 - website - www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com/Contact person Mr Pratap Kanjilal/Mr. D.D. Pakhare - MOB: 9832952602/8898418010 Land Line 080-23469665 email: ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in or Canara Bank's website www.canarabank.com The Earnest Money Deposit shall be deposited on or before 27.08.2020 upto 5 pm at Canara Bank, ARM Branch, Karol Bagh New Delhi.

No. 71 - Under Physical Possession.

Liability as on 30.06.2020 a. Reserve Price (Rs)

Name & Address M/s Ishvakoo India Pvt Ltd. Regd. Office:-C-681, New Friends colony, New Delhi-110065 Also at: - H-105, Connaught Circus, New Delhi-110001 1. Mr. Kamal Radhu, 2. Mr. Ishvakoo Radhu 3. Mr. Vivek Radhu , 4. Ms Anjana Radhu , 5. Mr. Akhil Radhu All residents of : a. C-681, New Friends colony, New Delhi-110065 b. House No. W-65, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048 c. H-105, Connaught Circus, New Delhi-110001 Investment Company Limited 2 M/s Foremost International Pvt Ltd., Plot No. 70 & Plot No. (Ami Jinen Shah) 71. Industrial Estate Phase I, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana Director DIN: 06792048 (122016)8, Giriraj, 2nd Floor, Khotochiwadi Mr. Varun Modgil, R/O - : H-2/19, DLF Phase 1, Gurgaon-V.P. Rd. Mumbai, 400004, Maharashtra 122002.

122002

M/s Maxamus Pharma Pvt Ltd (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given 221 Sarja Market, Naharpur, Sector-7, Rohini Delhi 110086 that a meeting of Board of Directors will be Also At: 315 Sarja Market, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi held on Friday, 31th July, 2020 to consider

Bagh, Delhi 110052

Mr. Vikas Bhatnagar S/o Sh. Dharam Prakash Bhatnagar, A-1/332, Janakpuri, Delhi 110058 Also at : A-4, C-69, Janakpuri, Delhi 110058 Mr. Pradeep Chawla S/o Shri Jagdish Chawla, House No. 23, 3rd Floor, Rajeev Enclave, Block C, Pocket-11, Sector-5, Rohini, Delhi 110085 Also at : House No. BS-55C, Shalima

Borrower/Guarantors/

Mortgagor.

Mr. Atul Modgil, R/O - : H-2/19, DLF Phase 1, Gurgaon-

Ms. Anu Modgil, R/O - : H-2/19, DLF Phase 1, Gurgaon-

122002. Also at : D-6/32, Vasant Vihar, New Delhi 110057

Ward no 13, Bari market, Gali Gubbare Wali, Sadar Bazar Delhi-110006 Mr Bharat Kumar Gupta, Shop No 117, Property No 6080, Ward No 13, Bari Market, Gali Gubbare Wali, Sadar Bazar Delhi-110006 Also at: R/O J-9/54 Second Floor, J/9 Block.

M/s Anjali Purse Zone, Shop No 117, Property no 6080,

Rajouri Garden, New Delhi 110027 Ms. Shail Gupta W/o Mr Bharat Kumar Gupta, R/O J-9/54 Second Floor, J/9 Block, Rajouri Garden, New Delhi 110027

M/s Batra Bag Factory, 2435 First Floor, Gali Munde Wali Commercial property Bearing Municipal No. 2434 Rs. 1,65,85,834.82 Sadar Thana Road, Sadar Bazar, Delhi 110006 Mr. Gulshan Batra S/o Daulat Ram Batra, 12/2 Second admeasuring approx 45.00 Sq. yards total Plinth five Lakh Eighty five Floor, Punjabi Bagh Extn., Delhi 110026 Also at : A-2/169, Paschim Vihar, Delhi 110063

Mr. Gurucharan Batra S/o Daulat Ram Batra, 12/2 Second Floor, Punjabi Bagh Extn., Delhi 110026 Also at: B-1/103, Paschim Vihar, Delhi-110063

M/S Durga Cable House, 340-A/7, Gali No. 1B Friends Colony Industrial Area Delhi 110095 Mr. Girish Kumar Garg, 340-A/7, Gali No. 1B, Friends

Colony Industrial Area, Delhi 110095 Also at : House No. 44/45, Bhola Nath Nagar, Shahdara. 44/45, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi 110032

Mrs Sushma Garg W/O Shri Girish Kumar Garg, IX-5892

Third Floor, Geeta Gali, Dharam Pura Gandhi Nagar,

Ms RITU GARG, Proprietor: M/s R.G. PULSES, Khasra No.

Also At: A-30, Mandi Marg, Kewal Park Extn., Adarsh Nagar.

Delhi 110033 Also at : 298, Mailish Park, Opposite Azadpur.

Mandi, Delhi 110033, Also at : Jeewan Jyoti Apartment,

Corp. Office - 219, Aggarwal Plaza, H-7, Netaji Subhash

R-15, Ashiana Village, Bhiwadi, Distt, ALWAR, Rajasthan -

Mr. Pankaj Kumar Garg S/o Mr. Jagjivan Kumar Garg, C-77

Mr Jagjivan Kumar Garg S/o Shri Rameshwar Dass Garg,

Ist Floor, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi 110034

Seelampur Shahadara, Delhi 110031

86, Prahaladpur Bangar, Delhi 110042

Area, Bhiwadi-301019, Dist - Alwar, Rajastan.

Place, Pitampura, Delhi - 110 034.

S/o Shri Rameshwar Dass Garg.

Pitampura, Delhi 110034

Mr Krishan Kumar Garg

Mrs Manoj Garg W/O Shri Hem Chand Garg, House No. Mr Hem Chand Garg, S/O Shri Sher Singh Garg, House No. 44/45, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi 110032 Mrs Sushma Garg W/O Shri Girish Kumar Garg, House No. 44/45, Bhola Nath Nagar, Shahdara. Delhi 110032.

Nagar, Gauri Shankar Bhawan, Shahdara Delhi-32 (Rupees One Crore Fifty in the name of Hem Chand Garg, admeasuring five Lakh Nine Thousand approx 585 square feet - Bounded as North - Mother Dairy No. 717, South - Gali, East - Gali, West - Main Road -Under Symbolic Possession.

Property No. 2436

Under Physical Possession.

Six Hundred Seventy

seven and paisa 05 only)

Rs. 1.55.09.677.05

Batra Plast)

Shop no. 4, Part of property no. - 2261, Gali Hinga Rs. 1,02,78,674.17 (Rupees One Crore Two b. 2,12,500.00 Naya Bazar , Delhi -110006 admeasuring 118 Sq. Ft Lakh Seventy Eigh

c. 10,000.00 Thousand Six Hundred d. 20.07.2020 Seventy Four and paisa seventeen only)

c. 10,000.00

c. 10,000.00 d. 20.07.2020

c. 10,000.00 d. 20.07.2020

c. 10,000.00

a. 2.33.10.000.00 b. 23,31,000.00 c. 100,000.00 d. 24.07.2020

1. Plot No. 70, Industrial Estate, Phase-1, Udyog Rs 22,37,50,257.41 1. Vihar, Gurgaon 122016 (Haryana) in the name of (Rupees Twenty Two Crores Thirty Seven Lakt Foremost India Exports (Proprietor Anu Modgil) admeasuring 450 sq. mtr., Bounded as : East - Road, Fifty Thousand Two West - Plot No. 58. North - Plot No. 69. South - Plot Hundred Fifty Seven and

Canara Bank.

paisa 13 only)

Rs. 39,36,70,828,13

(Rupees Thirty Nine

Crores Thirty Six Lakh

Hundred Twenty Eight and

b.40,50,000.00 c.1,00,000.00 d.21.07.2020 paisa 41 only) a.4,50,00,000.00 b.45,00,000.00

other expenses due to d. Date of Sale Notice

a. 14,31,00,000.00

b. 1,43,10,000.00

c. 1,00,000.00

d. 21.07.2020

a.4,05.00,000.00

c.1,00,000.00 d.21.07.2020 H No 23 Block C Pocket 11, 3rd (Top) Floor with roof Rs. 2, 12, 87, 646.80 a. 90,00,000.00 rights. Sector-5 Rohini, Delhi -110085 admeasuring (Rupees Two Crores b. 9,00,000.00

carpet area of flat 1500 Sq. Ft (approx) and Twelve Lakh Eighty c. 10.000.00 undivided area of Land as per sale deed 162 Sq. Mtr | Seven Thousand Six d. 20.07.2020 in the name of Mr. Vikas Bhatnagar and Pradeep | Hundred Forty Six and

a.26,00,000.00 Rs. 87,63,433.00 (Rupees Bari Market (Gali Gubbare Wali) Sadar Bazar Delhi | Eighty Seven Lakh Sixty b.2,60,000.00 c.10,000.00

d.20.07.2020

a. 67,00,000.00 and 2435, first, second & third Floor, over plot (Rupees One Crore Sixty b. 6,70,000.00 c. 10,000.00 d. 20.07.2020

> only) (Rs 1,09,37,575,16 in the account of Batra Bag towards liability of M/s

> > a. 22,00,000.00 Ь. 2,20,000.00 c. 10,000.00 d. 20.07.2020

a. 21,25,000.00

b. 7,00,000.00

d. 20.07.2020 a. 90,00,000.00 b. 9,00,000.00

a. 57,50,000.00 b. 5,75,000.00

a. 35,70,000.00 b. 3,57,000.00

the date fixed for sale.

d. 20.07.2020

**E-Auction of Properties** स्मिन्दिकेटबेंबः SyndicateBank

Asset Recovery Management (ARM) Branch, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 E-AUCTION SALE NOTICE Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the

Dilip Kumar Morwa Date: 25.07.2020 Place: Jaipur **Group Company Secretary** Leading Leasing Finance and Investment Company Limited Regd. Office: 504-T-2-ND Plot No.- 6/4 Jaina Distt Centre Janakpuri New Delhi 110058 Sr. (E) leadingleashing@gmail.com, (W)www.lifiltd.com CIN: L65910DL1983PLC016712, Phone: 011 - 65632288 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday 30" July, 2020 at 04,00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the audited Financial Results for the year ended 31" March 2020and any other businesses may be considered necessary. By order of the Board For Leading Leasing Finance and

Place: New Delhi

Date: 25.07.2020

JINDAL CAPITAL LTD. Regd Office: 79-A Kamla Nagar Delhi-110007 CIN: L74899DL1994PLC059720 Website: www.jindalcapital.in Email: investor@jindalcapital.in Phone: 011 23841536 Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI

30th June, 2020. It is further informed that pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 and pursuant to the internal code for prevention of Insider Trading of the Company the Trading Window for dealing in equity shares of the Company by its Directors & designated employees shall remain closed from July 23, 2020 until the closing of business hours on August 02, 2020 on account of

declaration of the aforesaid Un-audited

For Jindal Capital Ltd.

Pawan Kumar Jindal

Financial Results of the company.

and take on record Unaudited Quarterly

financial results for the quarter ended on

Place: Delhi Managing Director Date: 25.07.2020 DIN: 00524690 SAI BABA INVESTMENT AND COMMERCIAL

ENTERPRISES LIMITED

Reg. Office: 33/36, Basement, West Patel

Nagar, New Delhi-110008.

Email Id: saibabacommercials@gmail.com

Website: www.saibabainvest.co.in

Tel: 011-41056203 Contact no. +917303988341

CIN: L01100DL1981PLC012736

NOTICE OF BOARD MEETING Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 31" July, 2020 at 2:00 PM at its Registered Office at 33/36, Basement, West Patel Nagar, New Delhi-110008, inter-alia, to consider, approve and take on record Audited Standalone Financial Results along with audit report for the Quarter and Year ended on 31st

Further, in compliance with Clause (4) of Schedule

B of SEBI (Prohibition of Insider Trading)

Regulations, 2015 read with SEBI (Prohibition of

Insider Trading)(Amendment)Regulations, 2018,

Trading Window" for dealing in shares of the

Company by designated persons and their

March, 2020.

DATE : 24™ JULY, 2020

PLACE : NEW DELHI

immediate relatives is closed from Wednesday, 1st April, 2020 until the expiry of 48 hours after the declaration of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended on 311 March, 2020 on 31st July, 2020 BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS FOR SAI BABA INVESTMENT AND

COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED

SD/-

ANU BALA

COMPANY SECRETARY

BLS® BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED Regd Office: G-4 B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044 CIN: L51909DL1983PLC016907;

with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, July

of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing in the securities of the Company already closed for Directors, Officers and Designated Employees of the Company will reopen 48 hours after the Un-audited Financial Results for the first quarter ended on 30° June 2020 are made

Exchange of India Ltd. www.msei.in

financiale

29°, 2020 at 1" Floor, Vijava Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the first guarter ended on 30° June 2020 Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition)

public on July 29", 2020. The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.blsinternational.com and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) www.nseindia.com, BSE Limited

www.bseindia.com and Metropolitan Stock By Order of the Board For BLS International Services Ltd. Place: New Delhi Amit Sudhakar

Date: 25.07.2020

(Chief Financial Officer)

Website: http://www.blsinternational.com C-77. Ist Floor. Pushpanjali Enclave, Pitampura. Delhi 110034 Email: compliance@blsinternational.net; Mr Ram Kumar Garg S/o Shri Rameshwar Dass Garg, C-77. Contact no. +91-11-46990006 Ist Floor, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi 110034 Also NOTICE at: Residential Flat A-205 Aashiana Gul Mohar Colony Pursuant to Provisions of Regulation 29 read Bhiwadi, Distt. Alwar Rajasthan - 301019

301019

a M/s. Delite Industries (Partnership Firm) Shop No. 999, Eastern Side, Ground Floor, Pan Mandi, Sadar Bazar, Delhi-110006

2. Shri Girish Jain S/o Sh Rakesh Jain

1. Shri Rakesh Jain s/o Shri Padam Chand Jain

Smt. Sadhna Jain W/o Shri Rakesh Jain All resident of : A-31, Second Floor, Anand Vihar, Delhi-Intending bidders may contact SHRI C.V. ROY, AGM and/or SHRIMK PANDEY, Senior Manager, ARM Branch, Canara Bank, ARM Branch Land Line No. 011-28751723, 28754731 Mobile 9560062365/8755128475 during office hours on any working day for other details and inspection of properties.

Date: 24-07-2020, Place: New Delhi

South - Park

(Now Gurudwara)

Under Symbolic Possession.

Under Symbolic Possession.

Details and status of plus applicable interest b. EMD (Rs) possession of from 01.07.2020 plus c. Incremental Bid (Rs)

immovable property

Property No C-681, New Friends colony, New Delhi

110065 Measuring - 475 Sq yards in the name of Mr Kamal Radhu - Bounded as : East - 30' Wide Road, West-15 Service Lane, North-45 Wide Road, South Seventy Thousand Eigh Plot No. 680 Under Physical Possession.

2. Plot No. 71, Industrial Estate, Phase-1, Udyog Vihar, Gurgaon 122016 (Haryana) in the name of Foremost India Exports (Proprietor Anu Modgil) admeasuring 450 sq. mtr., Bounded as : East - Road, West - Plot No. 59, North - Plot No. 70, South - Road Under Physical Possession.

Chawla, Bounded as : East-Road, West - Plot No. 24, paisa 80 only) North-Service Lane, South-Road. Under Symbolic possession

Shop No 117, 1st Floor Mpl No 6080, Ward no 13,

110006 admeasuring 6.97 Sq. Mtr in the name of Three Thousand Foun Mrs. Shall Gupta - Bounded as : East - Common | Hundred Thirty three only) Passage, West - Part of property, North - Property No. 6080/118, South - Property No. 6080/116 -Property under Physical Possession.

Area being 112.88 sq, mtr or 1215 Sq. Feet (approx) Thousand Eight Hundred with roof rights - situated at Gali Munde Wali Sadar | Thirty four and paisa 82 Thana Road, Sadar Bazar, Delhi 110006 in the name of Gurucharan Batra. Bounded by East - Mandir. West - Road, North - Property No. 2433 & South Factory & Rs 56,48,259.66

Flat no -1, Prop. No-44 & 45, Main Road, Bhola Nath

M/s TARUN ALLOYS PVT LTD, A-905, RIICO Industrial 1. Shop measuring 16x32 ft. at B-IX/173, Tubewell Rs. 55,77,80,435.96 1. no-3,Guru Nanak Pura Mohalla, New Bus Stand (Rupees Fifty Five Crore a. 70,00,000.00 Road, Barnala (Punjab), Area 56.88 sq.yd in the Seventy Seven Lakt name of Mr. Jagjivan Kumar Garg - Bounded as : Eighty Thousand Fou East-Other Property, West - Road, North-Other Hundred Thirty Five and Property. South-Other Property. - Under Symbolic paisa 96 only) Possession

Commercial shop measuring 16x42 ft, situated at

B-II/11, Sadar Bazar Tirsha Bazar, Near the shop of

Sonu Sood Halwai, Barnala, Punjab. Area 74.66

sq.vd in the name of Mr. Krishan Kumar. Bounded as

East-Other Property, West - Road, North-Other

Beg, Tilak Bazar also called Gali Raghu Nandan

in the name of Mrs Ritu Garg - Bounded as : East -

Shop No. 5, West - Shop No. 3, North - Gali, South

Other property - Under Physical Possession.

Property, South-Other Property - Under Symbolic Possession. Residential House situated at B-II/218 (Old) B-II/245 (new) Band Gali, Tirsha Bazar, back side sadar bazaar Barnala, Punjab. Area 74.66 sq.yd in the name of Mr. Jagjivan Kumar Garg, Mr. Ram Kumar Garg & Mr. Krishna Kumar Garg - Bounded as : East-Other Property, West - Street, North-House of Vinod. South-House of Basant Goyal - Under Symbolic Possession.

4. Residential flat in apartment situated at Flat No.

AX-205, 2ND floor, Ashiana Gulmohar, Bhiwadi,

Alwar, Rajasthan area 1300 sq.ft in the name of Mr.

Ram Kumar Garg - Bounded as : East - Flat No. AY-

Marg Extn), North - Plot No. A-30, South - Park

204. West - Flat No. AX-206. North - Central Park Freehold Residential property consisting of 2nd Rs. 17,30,11,798.00 Floor (without roof rights) area admeasuring 301 (Rupees Seventeen Crore Sq Mtrs situated at A-31 Anand Vihar Delhi Thirty Lakh Elever 110092 in the name of Sh. Rakesh Jain bounded as Thousand Seven Hundred East - Service Lane, West - Road 100 Ft (Vikas Ninety Eight only)

Authorised Officer, Canara Bank

#### VANI COMMERCIALS LIMITED Regd. Off.: 'AASTHA', LP -11C, Pitampura, New Delhi - 110034 CIN: L74899DL1988PLC106425, Ph: 011-27324080 Website: www.vanicommercials.com, Email ID: Info@vanicommercials.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

			, une					
SI. No.	Particulars	3 months ended 30.06.2020	Corresponding 3 months ended 30.06.2019	12 months ended 31.03.2020				
1	Total Income from Operations	13.449	8.482	54.345				
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	1.234	0.484	2.478				
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	1.234	0.484	2.478				
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	1.234	0.484	0.348				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	N.A.	N.A.	N.A.				
6	Equity Share Capital	411.980	411.980	411.980				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.000	0.000	3.819				
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each):							
	1. Basic (₹) :	0.030	0.010	0.010				
	2. Diluted (₹):	0.030	0.010	0.010				
Note	Note:							

The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 25.07.2020. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website

(www.vanicommercials.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com). The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 30th June, 2020 which needs to be explained.

Jitender Kumar Juneja (Managing Director & CFO) DIN: 06639752



#### भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी–कम–एसएआरसी फरीदाबाद एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

#### कब्जा सूचना

के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 8.1.2020 जारी कर ऋणधारक: श्री कांछी सिंह, पुत्र चंदर सिंह पँवार, एच. नं. 390, आदर्श नगर, गली नं. 12, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरों: 1) राजीव पँवार, पुत्र श्री कांछी सिंह, एच. नं. 390, आदर्श नगर, गली नं. 12, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, 2) राजीव पँवार, पुत्र श्री कांछी सिंह, सी/ओ रेलिगेयर मार्केटिंग सर्विसेस प्रा.लि., 31, प्रथम तल. क्यमई एकता टस्ट हाउस. भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 5,02,743.00 (रुपये पांच लाख दो हजार सात सौ तैंतालिस मात्र) + 8.1.2020 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज सहित अनुषांगिक खर्चे लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 65054277046 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अत: एतदहारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज. 25 जुलाई, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,02,743.00 (रुपये पांच लाख दो हजार सात सौ तैंतालिस मात्र) तथा 8.1.2020 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट एच. नं. एमसीएफ 390 (पुराना प्लॉट नं. 198), आदर्श नगर, बल्लभगढ़ फरीदाबाद का सभी

भाग तथा हिस्सा। तिथि: 26.7.2020 प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक. आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

# भारतीय स्टेट बैंक

एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222 कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.5.2018 जारी कर ऋणधारक श्री कुलमोहन सिंह, पुत्र श्री किरपाल सिंह एच. नं. 5/126, निसान हट्स, एनआईटी, फरीदाबाद-121002 तथा गारन्टरों: 1) श्री हरिन्दर मोहन सिंह, श्री हरभजन सिंह, किरपाल सिंह, सरबजीत कौर तथा श्रीमती रविन्दर कौर एच. नं. 5/126, निसान हट्स, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, 2) श्री कुलमोहन सिंह, श्रीमती हरभजन सिंह, किरपाल सिंह, सरबजीत कौर, हरिन्दर मोहन सिंह तथा श्रीमती राजविन्दर कौर, एच. 235, सेक्टर-21 ए, फरीदाबाद-121002 को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 20.5.2018 को रु. 7,01,034.00 (रुपए सात लाख एक हजार चाँतीस मात्र) + 21.5.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज सहित अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 55051823244 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदद्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 25 जुलाई, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 20.5.2018 को रु. 7,01,034.00 (रुपए सात लाख एक हजार चौंतीस मात्र) तथा 21.5.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एच. नं. 235, सेक्टर-21ए, फरीदाबाद-121002, क्षेत्रफल माप 4833.20 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की गारन्टी श्री किरपाल, श्रीमती हरभजन सिंह, श्री सरबजीत सिंह तथा राजविन्दर कौर द्वारा दी गई है।

तिथि: 26.7.2020 स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक. आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी



### <u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.11.2019 जारी कर ऋणधारकः श्री ओम प्रकाश गर्ग तथा श्रीमती ललिता गर्ग, डी-925, छावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, ब्लॉक डी, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरों: 1) ओम प्रकाश गर्ग तथा श्रीमती ललिता गर्ग, सी/ओ विपिन श्रुज कम्पनी, चावला कॉलोनी, फरीदाबाद-121004, 2) परषोत्तम दास गर्ग, एमसीएफ सी-81 चावला कॉलोनी बल्लभगढ, फरीदाबाद-121004 को सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि रु. 10,26,175.00 (रुपये दस लाख छब्बीस हजार एक सौ पचहत्तर मात्र) + 16.11.2019 से अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज सहित अनुषांगिक खर्चे लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 55005756087 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत एतदृद्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 25 जुलाई, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1026175.00 (रुपये दस लाख छब्बीस हजार एक सौ पचहत्तर मात्र) तथा 16.11.2019 से अनबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 83, वार्ड नं. 1196/1082 (एच.नं.डी-925), चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, माप 100 वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 26.7.2020

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी



#### भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबा एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

#### कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.5.2018 जारी कर ऋणधारकः श्रीमती मधुवाला, पत्नी श्री महेश चन्द, एच.नं. 98, भाटिया कुन्दन कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरों: 1) श्री महेश चन्द, पुत्र श्री मणि पाल, एच.नं. 98, भाटिया कुन्दन कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, 2) श्री योगेश कुमार, पुत्र श्री भगवान सिंह, एच.नं. 255, कुन्दन कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, 3) श्री महेश चन्द, पुत्र श्री मणिपाल, कर्मचारी नं. 1782, सी/ओ गुड ईयर टायर कम्पनी, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121004, 4) योगेश कुमार, पुत्र श्री भगवान सिंह, एच.नं. 1019, भाटी भवन, कुन्दन कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 10,88,508.00 (रुपये दस लाख अठासी हजार पाँच सौ आठ मात्र) + 20.5.2018 से अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज सहित अनुषांगिक खर्चे लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। खाता सं. 65011292667 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज. 25 जलाई. 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1088508.00 (रुपये दस लाख अठासी हजार पाँच सौ आठ मात्र) तथा 20.5.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

सम्पत्ति एच.नं. 98, भाटिया कुन्दन कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 26.7.2020 स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

#### BLS INTERNATIONAL **SERVICES LIMITED** Regd Office: G-4 B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road,

New Delhi - 110044 CIN: L51909DL1983PLC016907; Contact no. +91-11-46990006

**NOTICE** ursuant to Provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, July 29th, 2020 at 1st Floor, Vijaya Building, 17 Barakhamba Road, New Delhi-110001 eralia, to consider and approve the Ur audited Financial Results for the first quarte

Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing in the securities of the Company already closed for Directors Officers and Designated Employees of the Company will reopen 48 hours after the Un-audited Financial Results for the first uarter ended on 30th June 2020 are made oublic on July 29th, 2020.

The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.blsinternational.com and on the websit of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE www.nseindia.com, BSE Limited www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. www.msei.in

> By Order of the Bo onal Services Ltd.

Place : New Delhi Date : 25.07.2020 **Amit Sudhaka** 

भग्रवाल ड्युप्लैक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड CIN: L99999DL1984PLC019052 पंजी. कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टिज माल, प्लॉ नं. 2. कम्यनिटी सेन्टर, रोड नं. 44 पर, पीतमपर

दिल्ली- 110034, फोन नं.: 011-47527700 Website: www.agrawalduplex.net

एतदृद्वारा सचित किया जाता है कि सेबी (सचीय दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपाल में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शक्रवा 31 जुलाई, 2020 को 11.30 बजे पूर्वा. में कम्पनी व पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन विषयों के साथ 31 मार्च. 2020 को समाप्त तिमाही तथ वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों प विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे इस उद्देश्य से इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये आचा संहिता के अंतर्गत आबद्ध निदेशक/ अधिकारी/ विर्निदिष कर्मचारियों/ प्रवर्तक के लिये टेडिंग विण्डो भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध विनियमन, 2015 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2020 से ह बंद है तथा 30.6.2020 को समाप्त तिमाही व अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे तथा इसकी जानकारी पत्र तिथि 31 मार्च 2020 तथा 30 जुन 2020 के माध्यम से स्टॉक एक्सचैं इस सुचना का विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईर

www.agrawalduplex.net पर उपलब्ध है तथ साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.i खं www.cse-india.com पर भी उपलब्ध है।

अग्रवाल ड्यप्लेक्स बोर्ड मिल्स लि. के लिये (नीरज गोयल

तिथि: 25.7.2020

DIN: 00017498

#### Email: yaducare@gmail.com, info.isl@yaducorporation.com NOTICE CALLING BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to

नई दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा)।

JINDAL CAPITAL LTD.

Regd Office: 79-A Kamla Nagar Delhi-110007 CIN: L74899DL1994PLC059720

Website: www.jindalcapital.in Email: investor@jindalcapital.in Phone: 011 23841536

NOTICE

ursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI

(Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on Friday, 31th July, 2020 to consider

and take on record Unaudited Quarterly

inancial results for the quarter ended on

t is further informed that pursuant to the SEBI

Prohibition of Insider Trading) Regulations,

2015 and pursuant to the internal code for

the Trading Window for dealing in equity shares of the Company by its Directors &

designated employees shall remain closed rom July 23, 2020 until the closing of business

hours on August 02, 2020 on account of

declaration of the aforesaid Un-audited

INDIAN SUCROSE LIMITED

CIN: L15424PB1990PLC010903 egistered Office: G.T. Road, Mukeriar

Distr Hoshiamur Punjah-144211 Phone: +91-9115110651/52/53

Website: www.muksug.com,

Pawan Kumar Jindal

Managing Director DIN: 00524690

on of Insider Trading of the Comp

30th June, 2020.

Date: 25.07.2020

Regulation 29 read with Regulation 47(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015. ("LODR Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday the 29th Day of July 2020 at 4:00 P.M. at registered office G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211 at inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and ended 31st day of March, 2020 and to transact all other business with the permission of the chair.

Copy of this notice is also available on the website of the Company www.muksug.com and the website of BSE Limited www.bseindia.com.

By Order of the Board of Director

Place: Punjab Anamika Raju Date: 25.07.2020

# कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर

प्रबंध निदेशव

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिका निगम, ग्वालियर म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अनुसार नगर निगम, ग्वालियर सीमा के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र खुली भूमि पर विज्ञापन कार्य हेतु युनिपोल नगाकर विज्ञापन करने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से पैकेज क्रमांक 01 से 04 की निविदा जारी की गई है। जिनकी टेण्डर आई.डी. 2020\_UAD\_98958\_1, 2020\_UAD\_98963\_1, 2020\_UAD\_98967\_1, 2020\_UAD\_98971\_1, के लिये दिनांक 23/07/2020 से 24/08/2020 तक निविदा ई—टेण्डर पोर्टल पर ऑनलाईन के माध्यम से क्रय की जा सकती है, अधिक जानकारी के लिये नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा श्री केशव सिंह चौहान, मो. 9713015710 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट ई–टेण्डर पोर्टल <u>www.mptenders.gov.in</u> पर प्राप्त की जा सकती हैं। नोडल अधिकारी, विज्ञापन शाखा नगर निगम, ग्वालियर

Ê	CENTRAL	WAREHOU	SING (	CORPOR	ATIO
Warehousing for everyone	(A (	GOVT. OF INDIA	UNDER	TAKING)	
Regi	onal Office: V	ibhuti Khand, G	iomti Na	gar, Lucknow	w- 226
No CWC	DO I KO/EE	NIT/2020 24/			De

regional officer violet reliand, de	office frauday, Edeleror	1 220010
No.CWC/RO-LKO/EE/NIT/2020-21/		Dated: 24.07.2020
	s Notice ender No. 42/43 e contractors for	the following work:
Sr. Name of Work	Estimated Cost in Rs.	Last date of online submission of tender
1 Construction of 2000 MTC	Rs. 10690939.80	17.08.2020

at CW Robertsgani (UP)

2. Reconstruction of 1920 MTC godown with electrical Installa at CW Bahraich (UP) Rs. 8394419.28 10.08.2020

Detailed Tender Notice alongwith conditions of contract and Notice Inviting E-Tender may be seen and downloaded from the CWC website <a href="http://eprocure.gov.in/epublish/app">www.cewacor.nic.in</a> or e-tender website <a href="http://eprocure.gov.in/epublish/app">www.cewacor.nic.in</a> or CPP Portal <a href="http://eprocure.gov.in/epublish/app">http://eprocure.gov.in/epublish/app</a>. Further Corrigendum/Addendum to this Tender, if any, will be published on website <a href="http://eprocure.gov.in/epublish/app/(CPP">www.cewacor.nic.in</a> <a href="http://eprocure.gov.in/epublish/app/(CPP">http://eprocure.gov.in/epublish/app/(CPP</a>) only, Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

### EXECUTIVE ENGINEER(C) ORACLE CREDIT LIMITED

# CIN: L65910DL 1991PL C043281

E-mail: oracle credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in

#### **Extract of Audited Financial Results** for the Quarter and Year Ended March 31, 2020

(Rs. In lacs					
SI.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
No.		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	9.38	6.88	29.32	26.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.20	3.68	16.77	14.17
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	4.64	2.73	12.51	10.49
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.64	2.73	12.51	10.49
6	Paid up Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00	555.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	22.64	10.13
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)	D- 0.000	D- 0.040	D- 0.005	D- 0.400
	Basic Diluted		Rs. 0.049 Rs. 0.049		
_	2110100	1.0. 0.000	1.10. 0.0 10		1.10. 0.100

The above is an extract of detailed format of Audited Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.oraclecredit.co.in. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and

Meeting(s) held on July 25, 2020. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019 and effective date of such transition is April 1, 2018.

Date: 25.07.2020

approved by the Board of Directors of the company at their respective

By the Order of the Boar For Oracle Credit Limited Ashok Kumar Jali Managing Director DIN-00091646

के बावजुद कल-गतिविधियां उनकी क्षमता के अनुरूप

शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और खुदरा महंगाई सात फीसद से ऊपर निकल सकती है। जून, 2020 में

आर्थिक विशेषज्ञों

का मानना है कि

पूर्णबंदी में काफी

कुछ ढील दिए जाने

कारखानों

उपभोक्ता सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति

6.09 फीसद रही। हालांकि, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े बाजार से जुटाए गए सीमित आंकड़ों पर आधारित हैं। कोरोना महामारी रोकने के लिए लागू पूर्णबंदी की वजह से व्यापक स्तर पर आंकड़े नहीं जुटो जा सके। वहीं थोक मुद्रास्फीति जून में शून्य से 1.81 फीसद नीचे रही। लेकिन यह एक माह पहले की तुलना में तेजी से उछली है। मई में यह शून्य से 3.21 फीसद नीचे थी।

कारखानों में काम क्षमता के अनुरूप नहीं चला तो बढ़ सकती है खुदरा महंगाई : विशेषज्ञ

बंगलुरु के डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकर्नोमिक्स के कुलपित प्रो. एनआर भानुमूर्ति ने महंगाई के परिदृश्य पर कहा- मुझे लगता है खुदरा मुहंगाई 7 से 7.5 फीसद तक जा सकती है। हाल में सरकार ने जितने भी वित्तीय समर्थन के उपाय किए हैं, वे सभी मांग बढ़ाने वाले हैं। इन उपायों के अमल में आने से मांग बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े तो महंगाई का आंकड़ा 8 फीसद तक भी जा सकता है। फल, सब्जी, ईंधन की लागत बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन कम्पलेक्स

चॉइसेज ( आइएएससीसी) के प्रोफेसर और सह-संस्थापक अनिल कुमार सूद ने कहा कि महंगाई का आंकड़ा सात फीसद के आसपास रह सकता है। इसमें कमी की संभावनाएं कम ही हैं। कच्चे तेल का दाम बढने से पेट्रोल-

डीजल के दाम हाल में काफी बढ़े हैं। दाल, खाद्य तेल का आयात भी बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से आयात महंगा होता है। दूरसंचार और परिवहन की लागत बढ़ी है। आपूर्ति शृंखला पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। कोरोना विषाणु का प्रभाव बना हुआ है।

पीएचडी वाणिज्य व उद्योग मंडल के अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने कहा कि कल-कारखानों में फिलहाल क्षमता का इस्तेमाल 50 से 55 फीसद के बीच हो रहा है। आपूर्ति शृंखला पूरी तरह से सामान्य नहीं है। हालांकि, कृषि क्षेत्र यानी खाद्यान्न के मामले में उत्पादन की समस्या नहीं होनी चाहिए। रबी में फसल अच्छी रही है। खरीफ में भी अच्छी रहने की संभावना है। लेकिन कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और कारखानों में पूरी क्षमता से काम नहीं हो पाने से आपूर्ति प्रभावित हो संकती है। कच्चे तेल के दाम 50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचते हैं तो उसका भी लागत पर असर पड़ सकता है। आयात महंगा होगा, माल-भाड़ा बढ़ सकता है। प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा है। कुशल मजदूरों की कमी से गतिविधियां पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान पांच फीसद तक कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू रेटिंग एजंसी इक्रा ने तो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5 फीसद की बड़ी गिरावट आने का अनुमान जताया है।

# विदेशी मुद्रा भंडार 517.637 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 25 जुलाई (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.275 अरब डॉलर बढ़कर 517.637 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई

पदम कॉटन यार्न लिमिटेड (सी आई एन संख्या: L17112HR1997PLC033641) पंजीकृत कार्यालयरू 196, 1St मंज़लि, विपरीत रेड क्रॉस भवान, जी. टी. सडक, करनाल- 1321001. हरियाणा वेबसाइट: www-padamcotton-com : ईमेल: raievoswal@vahoo.com : टेलीफोन

सूचना सबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनयम, 2015 के अधिनयम 29 और 47 के साथ पठित प्रावधानों के सन्तर्भ में सूचित किया जाता है कि कंपनी के निवेशक मंद्रत की एक बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को आयोजित की जाएगी। जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाड़ी के लिए कंपनी के अन-ऑडिट किए गए वित्तीय परिणामों पर विचार और जन्दें अनुमीदित किया जायेगा। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानी अध्यक्ष 2021 के उन्हों के समाप्त तिमाड़ी के स्वाप्त कंपनी के वेबसाइट यानी अध्यक्ष 2021 के अपन

ww.bseindia.com जहां कंपनी की इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है। (स्क्रिप कोडरू 531395) पदम कॉटन यार्न लिमिटेड दिनांक: 26 जुलाई, 2020

> (राजीव गुप्ता) प्रबंध निदेशक डीअईएन: 00172828

पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गईँ है। इससे पूर्व के सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.108 अरब डॉलर बढ़कर 516.362 अरब डॉलर हो गया था।

पांच जन को समाप्त सप्ताह में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। उस समय यह 8.223 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 501.703 अरब डॉलर हो गया था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने का कारण सत्रह जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का बढ़ना है जे कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.245 अरब डॉलर बढ़कर 476.880 अरब डॉलर हो गईं। रिजर्व बैंक के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण आरक्षित भंडार 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 34.743 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार 20 लाख डॉलर बढ़कर 1.455 अरब डॉलर हो गया जबकि आइएमएफ में देश का आरक्षित मुद्रा भंडार 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.560 अरब डॉलर हो गया।

#### SpiceJet **SpiceJet Limited**

CIN: L51909DL1984PLC288239 Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi -110 037 Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com;

T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

#### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 29th day of July, 2020 to consider and approve, inter-alia, the audited standalone and consolidated inancial results of the Company for the financial year ended March 31, 2020.

The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited

Date: July 25, 2020 Place: Gurugram

Chandan Sand Sr. VP (Legal) & Company Secretary

एनदीपीसी NTPC (शरत सरकार का उद्यम्)

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रमोटर्स / लेंडर्स, विद्युत चत्पादक कंपनियों के प्राधिकृत वित्तीय मध्यस्थ, स्वतंत्र विद्युत निर्माता / डेवलपर्स से भारत में स्थित अपने परिचालनात्मक घरेलू सौर आधारित विद्युत सम्पतियों की एनटीपीसी द्वारा संभावित अधिग्रहण की

पेशकश के लिए

आरएफपी नं. RE-ASSET-004-01 दिनांकः 24.07.2020 प्रस्ताव दस्तावेज संख्याः RE-CS-ASSET-004-01

एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी, महारत्न का दर्जा प्राप्त विद्युत उत्पादक कंपनी, प्रमोटर्स/ लॅंडर्स, विद्युत उत्पादक कंपनियों के प्राधिकृत वित्तीय मध्यस्थ, स्वतंत्र विद्युत निर्माता/डेवलपर्स से भारत में स्थित अपने योग्य घरेलू सौर आधारित विद्युत सम्पतियों की पेशकश के लिए एनटीपीसी की निविदा वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार दो चरणों (स्टेज-।: टेक्नो-कमर्शियल और स्टेज-।: प्राइस) में ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव दस्तावेज 24.07.2020 से 24.08.2020 तक मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं प्रस्ताव प्रस्तावज 24.07.2020 स 24.08.2020 तक नुस्त डाउनलाड किए जा सकत है। रटेज-। (तकनीकी-वाणिज्यक) प्रस्तावों के 22.09.2020, 1430 बजे (आईएसटी) तक प्राप्त किया जाएगा और उसी दिन 1500 बजे (आईएसटी) खोला जाएगा। रटेज-।। (त्र्व्य) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को स्टेज-। (टेक्नी-कमर्शियल) प्रस्तावों के खुलने के बाद अलग से सूचित किया जाएगा।

इच्छुक आवेदकों को विस्तृत आरएफपी/प्रस्ताव दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.ntpctender.com या https://www.bharat-electronictender.com पर निविदा खोज कोड NTPC-2020-TN000015 के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक आवेदक् उपमहाप्रबंधक (RE-CS) / विरिष्ठ प्रबंधक (RE-CS), एनटीपीसी लिमिटेड, फोन +91-120-4947372 पर भी संपर्क कर सकते हैं ।

ई मेलः abhishekbhattacharjee@ntpc.co.in, shailendra@ntpc.co.in. पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, रकोप कॉम्पलेक्स, ७, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, CIN: L40101DL1975GO1007966

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

गुडलक इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 509, अरूणांचल भवन, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस,

नर्ड दिल्ली-110001. Website: www.goodluckindia.com E-mail: goodluck@goodluckindia.com | CIN: L74899DL1986PLC050910 निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकार में कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंतरण की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 6 (3) के साथ पठित। इसके तहत गुडलक इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को नोटिस दिया गया

उक्त नियमों के अनुसार, यदि कोई अंशधारक सात वर्ष या उससे अधिक की लगातार अवधि के लिए

लामांश राशि का दावा नहीं करता है, तो उसके (पुरूष)/ उसके (महिला) पास मौजूद शेयरों को नियमों के अनुसार गठित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्ष 2012-2013 के दौरान घोषित लाभांश जो सात साल की अवधि के लिए अदत्त या लावारिस रहेगा, उसे आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तदनसार. उन सभी शेयरधारकों के शेयर. जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का दावा नहीं किया था, अब आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण के लिए बाकी हैं। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, इस स्थिति में शेयरधारकों को वर्तमा स्थिति के तहत जल्द से जल्द आवश्यक संचार भेजा जा सकता है। ऐसे शेयरधारकों के पर्ण विवरण जिनमें उनके नाम, फोलियो नंबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी और स्थानांतरण के कारण शेयर शामिल हैं, को कंपनी की वेबसाइट यानी <u>www.goodluckindia.com</u> पर भी पोस्ट किया गया है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे लावारिस लाभांश का दावा करें। नियमों के अनुसार, बिना किसी सचना के आईईपीएफ को हस्तांतरित होने वाले शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यदि शेयरधारक अपने शेयरों / लाभांश (शों) का आईईपीएफ में स्थानांतरण के बाद दावा करना चाहता है, आईईपीएफ प्राधिकरण के रूप में आईईपीएफ के नियमों के तहत एक अलग आवेदन करना होगा, जैसा कि आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित है और वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी www.iepf.gov.in और उसी विधिवत हस्ताक्षरित की एक भौतिक प्रति, कंपनी को आईईपीएफ—5 के रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजी जानी चाहिए।

थानः गाजियाबाद

तिथिः 25.07.2020

इसके अलावा, यदि शेयरधारकों के पास विषय वस्तु या नियमों पर कोई प्रश्न हैं, तो वे कंपनी के आरटीए से, मैस सर्विसेज लिमिटेड, टी —34, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण नई दिल्ली— 10020, टेलीफोन नं. 011—26387281, ईमेल—<u>info@masserv.com</u> पर संपर्क कर सकते हैं। मंडल के आदेशानुसार कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड

हस्ता./ (अभिषेक अग्रवाल) कंपनी सचिव

NDIA BATTERY SERVICE Shahnazaf Road, Hazratganj/Tiwariganj, Lko. Mob.: 8400000660, 8400300580

### पड़ोसी देशों से खरीद पर रोक स्वागत योग्य : आइईईएमए

लेकिन इसके बाद की स्थिति के लिए भी तैयार रहे भारत

मुंबई, 25 जुलाई (भाषा)।

उद्योग संगठन आइईईएमए ने भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े देशों के लिए सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उसने इसके साथ ही यह भी कहा कि देश को कम से कम समय में इसके परिणाम और इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

आइईईएमए इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्टॉनिक्स निर्माताओं का सर्वोच्च निकाय है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े चीन व अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सार्वजनिक खरीद बोली में भाग लेने को लेकर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने भारत की सुरक्षा और रक्षा के आधार पर भारत की भू-सीमा के साथ लगते देशों से बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। उक्त नियमों के तहत व्यय विभाग ने एक विस्तृत आदेश जारी किया है।

आइईईएमए के अध्यक्ष आरके चुघ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग में प्रभावी रूप से सेवा मुहैया कराने और न केवल भारतीय उद्योग की जरूरत को पूरा करने, बल्कि इसके निर्यात को बढ़ाने की क्षमता और लागत प्रतिस्पर्धिता है। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में अपने घरेलू बाजार में चीन को लेकर गंभीर हैं, तो हमें निर्माताओं, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकार सहित सभी को इस पर प्रतिबद्ध होने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश को कम से कम समय में इस तरह के कदम के परिणाम और कीमत दोनों के लिए तैयार रहना होगा। चुघ ने कहा कि मध्यम अवधि से हम मेक इन इंडिया प्रयासों से भारी लाभ देखना शुरू कर देंगे। संगठन ने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। भारत के साथ जमीनी सीमा के साथ लगते देशों में चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमा, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं।

### भारत कल सौंपेगा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन

नई दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा)।

भारत सोमवार यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपेगा। रेलवे ने एक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश को ये इंजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सौंपे जाएंगे। भौतिक रूप से इंजनों का आदान-प्रदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी



की तरफ दर्शना स्टेशन पर होगा। बांग्लादेश ने इन इंजनों की खरीद के लिए पिछले साल अप्रैल में भारत को एक प्रस्ताव भेजा था। बांग्लादेश को दिए जा रहे 33 सौ हॉर्सपावर वाले डब्लूडीएम 3डी लोको इंजनों की

उम्र 28

साल या

रेलवे के गेडे

स्टेशन और

बांग्लादेश